



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जून 27—जुलाई 3, 2004, शनिवार/आषाढ़ 6—आषाढ़ 12, 1926  
No. 15] NEW DELHI, JUNE 27—JULY 3, 2004, SATURDAY/ASADHA 6—ASADHA 12, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2004

आ.अ. 34.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तरांचल राज्य से लोक सभा के उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्माण द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जान पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या कियी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल राज्य से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन, 2002	4—नैनीताल	दुलाल मण्डल, गुलारभोज, पो० गुलारभोज, जिला—ऊधम सिंह नगर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	प्रनवक कुमार शाह, नगर-दिनेशपुर, डा० खास, जिला ऊधम सिंह नगर	-वही-
3.	-वही-	-वही-	रमेश, पुराना खेड़ा रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	-वही-

[सं० 76/उत्तरा०-लो०स०/2002(उप०)]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)—सह- प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 7th June, 2004

**O.N. 34.**— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the bye-elections to the Lok Sabha in the State of Uttaranchal as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting candidates	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to the Lok Sabha Election of the State of Uttaranchal-2002	4-Nainital	Shri Dulal Mandal, Gularbhoj, Post-Gularbhoj, Distt. Udham Singh Nagar	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	-do-	Pranwak Kumar Shah Town Dineshpur, Post Office Proper, Distt. Udham Singh Nagar	-do-
3.	-do-	-do-	Ramesh, Purana Khera, Rudrapur Distt. Udham Singh Nagar	-do-

[No. 76/UCL-HP/2002(Bye)]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2004

आ.अ. 35.—भारत निर्वाचन आयोग के, तारीख 8 दिसम्बर, 2003 के आदेश संख्या, 76/उ०प्र०-वि०स०/2002 के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ 1 से 5 में, क्रम संख्या 6 में विनिर्दिष्ट शब्द एवं अंकों को हटा दिया जाये। इसके बाद की प्रविष्टियों की क्रम संख्या स्वतः ही परिवर्तित मानी जायेगी।

[सं० 76/उ०प्र०-वि०स०/2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)—सह-प्रधान सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2004

O.N. 35.—In the table appended to the Election Commission of India's Order No. 76/UP-LA/2002, dated 8-12-2003, the words and figures specified in column Nos. 1 to 5, against Serial No. 6, may be omitted. Subsequent entries shall deemed to have been altered accordingly.

[No. 76/UP-LA/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

आ.अ. 36.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग दमण और दीव एवं दादर और नागर हवेली के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री आर०के० श्रीवास्तव, आई०ए०एस० के स्थान पर श्री जे०के० दादू, आई०ए०एस० (ए०जी०एम०यू०-83) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए दमण और दीव एवं दादर और नागर हवेली संघ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. आयोग, दमण और दीव एवं दादर और नागर हवेली में पूर्ण कालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए जोर नहीं दे रहा है और श्री जे०के० दादू को अपना नियमित अतिरिक्त कार्यभार अपने पास रखने की अनुमति दी है।

[सं० 154/डी०एन०एच०/2004-का० प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 2004

O.N. 36.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13-A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Administration of the Union Territory of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli hereby nominates Shri J. K. Dadoo, IAS (AGMU : 83) as the Chief Electoral Officer for the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri R. K. Srivastava, IAS.

2. The Commission is not insisting on a full time Chief Electoral Officer in the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, and has allowed Sh. J. K. Dadoo to retain his regular additional charge(s).

[No. 154/DNH/2004-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.